

# Quick Heal Technologies Ltd.

C-7010, 7th Floor, Marvel Edge, sr.no.207, opp. NECO Garden Society, Vimannagar, Pune 411014, India.

# Ref. No.: QHTL/Sec/SE/2023-24/10

April 19, 2023

The Manager, Corporate Services, BSE Limited, 14th Floor, P J Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 Ref: Security ID: QUICKHEAL Security Code: 539678 The Manager, Corporate Services, National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 Symbol: QUICKHEAL Series : EQ

Dear Sir/Madam,

# Sub: Outcome of Board Meeting – Newspaper Advertisement

In continuation to our letter dated April 17, 2023 with regard to Outcome of Board Meeting, please find enclosed copies of advertisement published in following newspapers:

| Newspaper         | Language | Editions |
|-------------------|----------|----------|
| Financial Express | English  | All      |
| Prabhat           | Marathi  | Pune     |

This is for your information and records.

Please acknowledge the receipt.

Thanking you.

For Quick Heal Technologies Limited

A. Srinivasa Rao Company Secretary M.No.: F9901 WEDNESDAY, APRIL 19, 2023

# • 'USER TESTING' OF THE MODEL UNDERWAY

# Volkswagen eyes 2024 for first India EV launch

#### VIKRAM CHAUDHARY New Delhi, April 18

VOLKSWAGEN WILL LAUNCH an electric car in India by late 2024 or early 2025, Ashish Gupta, brand director, Volkswagen Passen-ger Cars India, told FE. The company is currently carrying out 'user testing' of its ID.4 model, which is an electric SUV with a range of our model, which is an electric SUV with a range of over 450 km. "We are doing 'user testing of the ID.4 in Indian climatic

of the ID.4 in Indian climatic conditions, to make sure that the platform is suited for India," (gupta said." If things go as per plan, we could be looking at market launch of an electric car by late 2024 or early 2025," he added.Gupta said that the ideal route would be to assemble the ID.4 in India, so that the pricing can be in the affordable range. "While mass localisation of

be in the affordable range. "While mass localisation of electric cars in India will take electric cars in India will take some time, we can start with local assembly (importing parts as completely knocked down kits and assembling in India) as early as late 2024," he said. "The target price (of the ID.4) we have in mind is in the rowge of

1

isin the range of ₹45 lakh, and we expect to sell 300-400 sell 300-400 cars every month to startwith.The ID.4 is a big SUV, almost the same size as the

> Sr. No. Total Net P Net P Extra 4. Net p Extra 5. Total ( for the

Equity Reser Audite Earnir not ar 1. Bas 2. Dil Note: The al SEBI (Listing Stock Exchai Company's V BSE Website National Sto Notes to the 1 The ur Comm The Sta

Based of the Gro 4 Mr. Gu remun

The Exe (1st floo

6 Figure:

7 The fir below.



ered Tiguan (currently priced ₹34.2 lakh, ex-showroom)? The German carmaker sells electric cars globally under the ID.3, the SUV ID.4, the SUV coupe ID.5, the saloon ID.7 and the spacious ID.Buzz.As far as mass localisa-tionisconcernet will be the right time to start will be the right time to start bringing our global electric car portfolio to India," Gupta said. "Globally, we will have a large portfolio of electric models by then." On Tuesday, at the ongo-ing Auto Shanghai, chief execu-tive of VW Passenger Cars, Thomas Schafer said the car-maker plans to introduce 10 more electric car models glob. tionisconce Gupta said that more electric car models glob uthat ue period 2025-27 wi<sup>11</sup> make

ally by 2026. While Volkswagen-branded While Volkswagen-pranueu electric car is expected to come to India only by late 2024, the Volkswagen Group (comprising make most sense. "That period

> The target price (of the ID.4) we have in mind is in the range of ₹45 lakh, and we expect to sell 300-400 cars every month to start with.

ASHISH GUPTA, BRAND DIRECTOR, VOLKSWAGEN PASSENGER CARS INDIA

Audi and Lamborghini) had started the electrification drive started the electrification drive in India in 2021, when the lux-urybrand Audilaunched five EV models under the e-tron sub-brandand Porsche launched the Taycan electric supercar. "In 2022, due to the semi-conductor shortage, we lost

conductor shortage, we lost 15,000-18,000 units (cars that we could not deliver)," Gupta said. "But this year we aim to grow40-45% over 2022, which

said. "But this year we aim to grow 40-45%over 2022, which should give us a market share of 1.5-1.6%. In the first three months of 2022, we have already sold 10,119 cars." The rising market share is due to the two new models Volk-swagen launched in 2021 (the Taigun midsize SUV) and 2022 (the Virtus midsize sedan). Gupta said that almost 80% buyers of the Taigun and Virus ranges from 6-8 weeks, but most other models are available in just 2-3 weeks of booking. "While the semiconductor shortage is still there, we have been able to minimise its impact on our cars," he said. On Tuesday, the carmaker introduced new variants on the Taigun and Virus

variants on the Taigun and Vir-tus, including a manual transtus, including a manual trans-mission variant on the top-of-the-line Virtus GT Plus powered by the 1.5-litre TSI EVO engine, two variants of the Taigun (GT Plus MT and GT DSG), and a new exterior body colour 'lava blue' launched on the Virtus and Tai-gun cross alluvriant

oss all variants.

occeluo

# SAMEER RANJANBAKSHI Bengaluru, April 18 Kumar added. "Combined

COGNIZANT'S CEO RAVI Kumar said that more than 300,000 employees will get imminent salary hikes. The company gave an appraisal six months earlier in the year. The development comes days after Cognizant's chief people officer Rebecca Schwitt resigned from her people officer Rebecca Schmitt resigned from her office. She will be leaving Cog-

niant effective May 5. In an internal note, Ravi Kumar work, This week, the vast majority of you who are in levelup to associate direc-tion will receive your 2023 merit pay electrors. Keep in merit inverse to be six month earlier in the year, fol-nominumer and barform prolowing year-end performance reviews. This means many of you are seeing your third merit increase in 18 months."

10

■ Finolex plans to introduce 50,000 outlets n Tier 2 and 3 mark

by the end of the fiscal

ach 200 000

Kumar added, "Combined with the metit increases to eligi-ble directors and above received in panuary, Cognizant is award-ing more than 300,000 associ-ates a merit increase this year." Aditya Mishra, MD and CEO of CIEL HR, said, "Nor-mally companies come out to offer these kind of largesse when they want to reduce attrition. Attrition that was blich in the India IT sector is

high in the Indian IT sector is gradually stabilising."

# Finolex expands capacity, portfolio

**GEETA NAIR** Pune, April 18

ELECTRICAL AND TELECOM-MUNICATION cables company – Finoles Cables – is expand-ing manufacturing capacities at its plants in Pune, Goo and Roorkee acrossis is poduct port-folio, including communication cables, solar cables, wire har-nessing cables for automotive and the construction segment. The companyisalso expand-ing the optic fibre line. In the FMEG segment, the companyis expanding its portfolio and has

solar power cables business, which also has applications in EVs, high-speed trains and data centres. This would be a ₹100-crore investment. The company has procured specialised

Sr. No.

radiation technology equip-ment for manufacturing solar cables using controlled elec-tron e-beam technology. Deepak K Chhabria, execu-tive chairman, Finolex Cables, said with these investments and expansion, the company could add another ₹1,000-₹1,500 crore to the top-line and take it to around to f6,000 crore. He expected the comreaching this top-line mark. The debt-free company that was sitting on cash reserves of around ₹2,200 crore was lookaround ₹2,200 crore was look-ing at deploying these funds but would only look at adjacent products, Chhabria said. The 5G rollout by the telecom industry would lead to the fiberisation of telecom towers, tibensation of telecom towers, making it a ₹5 trillion oppor-tunity. Finolex was already working with Bharti, Reliance and Tatas for supplying these cables. Chhabria said the demand for LAN cables was crore. He expected the com-pany to take around a year to complete expansion pro-grammes and achieve 85% capacity utilisation levels for

growing and they were expanding capacity by 20% in three to four months.

expanding capacity by 20% in three to four months. The fibre capacity at Finolex was being expanded from 2 million fibre knt 0.3.5 million fibre knt, optic fibre cable capacity was being increased by 2 million fibre km. LAN cable capacity may be month to 10 million fibre km. LAN cable capacity may be month a second plant for con-duits was being considered. As part of backwand integration, Finolex has set up a copper rof manufacturing facility at Go part to occlowate integration, Finders has set up a copper rod manufacturing facility at Goa and in-house YC compound manufacturing facilities at Use, Pimpri, and Noorke plants. The company has recently added additional machinery at its Goa plant tomeet the during the trat-egy, Finoletis set timing up at the trate of the set of the set of the ensure product availability in retail outlets with plants to add 50,000 outlets with plants to add 50,000 outlets to Treah 20,000 retailers to treah 200,000 retailers by the end of the financial year.

Year ended

|  |                    | acce                 | ziya                   |
|--|--------------------|----------------------|------------------------|
| Accelya Solutions Ind  | ia Limite          | d                    | 10                     |
| CIN: L74140PN1986PL0   | C041033            |                      |                        |
| egistered Office: 5th & 6th Floor, Building No. 4, Raheja  |                    | Side 25A, Wes        | t Avenue,              |
| Kalyani Nagar, Pune - 411 006 Tel: +   |                    |                      |                        |
| Email: accelyaindia.investors@accelya.com  | Website: w3.a      | ccelya.com           |                        |
| EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FIN  |                    |                      |                        |
| QUARTER AND NINE MONTHS ENDE   | D 31 MARCH         | 2023                 |                        |
|  |                    | (Rupees Lakhs        | except per share data) |
| APR 2007 1973 1  | Quarter Ended      | Nine Months<br>Ended | Quarter Ended          |
| Particulars  | 31 March 2023      | 31 March 2023        | 31 March 2022          |
|  | (Unaudited)        | (Unaudited)          | (Unaudited)            |
| Revenue from operations  | 11,945.86          | 34,686.01            | 9,279.16               |
| Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)  | 3,787.79           | 11,528.58            | 2,678.13               |
| Profit for the period before tax (after Exceptional and<br>ordinary items)   | 4,950.44           | 12,691.23            | 2,678.13               |
| profit for the period after tax (after Exceptional and<br>ordinary items)  | 3,629.45           | 9,461.50             | 1,981.90               |
| Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss)<br>ne period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]  | 3,528.87           | 9,405.52             | 2,010.11               |
| y share capital  | 1,492.69           | 1,492.69             | 1,492.69               |
| rves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the<br>ted Balance Sheet of previous year   | 8                  |                      | (14)                   |
| ings per share (EPS) (of Rs. 10/- each) (Rs.) (for the period -<br>innualized):  |                    |                      |                        |
| asic:  | 24.32              | 63.39                | 13.28                  |
| luted:   | 24.32              | 63.39                | 13.28                  |
| bove is an extract of the detailed format of Quarterly Financials Results<br>g and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full form<br>inge websites.  |                    |                      |                        |
| Website: https://w3.accelya.com/accelyakale-quarterly-annual-reporte: www.bseindia.com   | ts                 |                      |                        |
| ock Exchange of India Limited: www.nseindia.com  |                    |                      |                        |
| e financial results  |                    | 1                    | 100 A.S. 000           |
| naudited consolidated Financial Results for the quarter and nine mor<br>nittee and were approved by the Board of Directors in its meeting held or  |                    | rch 2023 were rev    | iewed by the Audit     |
| atement has been prepared in accordance with the recognition and me<br>ard 34 "Interim Financial Reporting" ("Ind AS 34") prescribed under   | Section 133 of the | e Companies Act,     | 2013 read with the     |
| nt rules thereunder and the terms of the SEBI (Listing Obligations and Di  |                    |                      |                        |
| on the "management approach" as defined in Ind AS 108-Operating S<br>oup's performance as a single business segment namely travel and trans  |                    |                      | on Maker evaluates     |
| urudas Shenoy was appointed as Managing director w.e.f. 01 July, 2022.<br>Teration committee, which was then approved by Board of Directors ar<br>ation to the Central Government seeking approval for his appointment a | nd Shareholders of | f the Company. The   | Company has filed      |
| cceptional items for the quarter and nine months ended 31 March 202  |                    |                      |                        |
| oor of Building 'Sharada Arcade') at Pune.   |                    |                      | a la face y            |
| s for the previous periods/ year have been regrouped/ reclassified when  |                    |                      |                        |
| nancial results of the Company on a standalone basis for the quarter a   | and hine monute e  | ndeo 31 March 20     | 23 are summarised      |
|  |                    |                      | (Rupees Lakhs)         |
|  | Quarter Ended      | Nine Months          | Quarter Ended          |

er Ender Sr. No. 31 March 2023 31 March 2023 31 March 2022 Particulars (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 30.531.65 Total Re venue from operations 10.387.75 8.318.86 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items 3.711.03 10.728.80 2.620.06 Net Profit for the period (before tax, faceptional and EXT Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items) 4,873.68 11,891.45 2,620.06 Net profit for the period after tax (after Exceptional and 3,613.82 8,910.41 1,968.36 Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Incor 8,547.52 1,980.29 3,438.18 (after tax)] For Accelva Solutions India Limited Gurudas Shenoy Place: Mumbai Date : 18 April 2023 Man DIN: 03573375 financialers epar .in .

# Salary hikes for over 300,000 Cognizant staff



It has entered solar power cables business, which also has applications in EVs, high-speed trains and data centres

FMEG segment, the companyis expanding its portfolio and has entered the small home appli-ances segment with a range of steam and dry irons. Finolex is also entering the smart switches and smart door lock categories. Finolex Cables is investing V200 crore in the next few months to expand capacity at its Urse plan in Pune. The company has also entered the solar power cables business.

#### **Quick Heal** Security Simplified QUICK HEAL TECHNOLOGIES LIMITED Regd. Office: Marvel Edge, Office No. 7010 C & D, 7th Floor, Opposite Neco Garden Society, Viman Nagar, Pune - 411014 Phone: +91 20 66813232 CIN: 172200NH1995PLC091408 Email: csc@outickheal.co.in STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS OF QUICK HEAL TECHNOLOGIES LIMITED FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023 (₹ in Crores, except earning per sh Quarter ended March December March March March 31, 2023 31, 2022 31, 2022 31, 2023 31, 2023 Particulars

| 110. |   | 31, 2023<br>(Audited)          | 31, 2022<br>(Unaudited)             | 31, 2022<br>(Audited)          | 31, 2023<br>(Audited)          | 31, 2022<br>(Audited)          |
|------|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1    | Income  |                                |                                     |                                |                                |                                |
|      | Revenue from operations   | 49.28                          | 66.80                               | 103.71                         | 278.09                         | 341.90                         |
|      | Other income  | 10.06                          | 3.47                                | 5.67                           | 22.13                          | 19.20                          |
|      | Total income  | 59.34                          | 70.27                               | 109.38                         | 300.22                         | 361.10                         |
| 2    | Expenses  |                                |                                     |                                |                                |                                |
|      | Cost of raw materials consumed  | 0.25                           | 0.21                                | 0.37                           | 1.11                           | 1.01                           |
|      | Purchase of software products   | 1.32                           | 1.78                                | 5.27                           | 7.83                           | 13.00                          |
|      | Changes in inventories of software products   | (0.15)                         | 0.52                                | (1.22)                         | 0.39                           | (1.85)                         |
|      | Employee benefits expense   | 37.95                          | 40.38                               | 39.39                          | 154.90                         | 139.49                         |
|      | Depreciation and amortisation expense   | 3.73                           | 4.17                                | 4.58                           | 15.99                          | 17.38                          |
|      | Other expenses  | 26.08                          | 35.28                               | 25.03                          | 111.98                         | 83.39                          |
|      | Total expenses  | 69.18                          | 82.34                               | 73.42                          | 292.20                         | 252.42                         |
| 3    | Profit before tax (1-2)   | (9.84)                         | (12.07)                             | 35.96                          | 8.02                           | 108.68                         |
| 4    | Tax expense   |                                |                                     |                                |                                |                                |
|      | Current tax   |                                |                                     |                                |                                |                                |
|      | Pertaining to profit for the current period   | (3.96)                         | (2.16)                              | 8.11                           | 1.28                           | 25.88                          |
|      | Adjustments of tax relating to earlier periods  |                                | (0.14)                              | 0.00                           | (0.14)                         | 0.65                           |
|      | Deferred tax (benefit) / charge   | 0.76                           | (0.48)                              | (0.24)                         | 0.48                           | (1.04)                         |
|      | Total tax expense   | (3.20)                         | (2.78)                              | 7.87                           | 1.62                           | 25.49                          |
| 5    | Profit for the period (3-4)   | (6.64)                         | (9.29)                              | 28.09                          | 6.40                           | 83.19                          |
| 6    | Other comprehensive income, net of tax  |                                |                                     |                                |                                |                                |
|      | Other comprehensive income not to be reclassified to profit or loss in<br>subsequent periods: |                                |                                     |                                |                                |                                |
|      | Re-measurement of defined benefit plans   | 0.25                           | 0.18                                | 0.39                           | 0.13                           | 0.62                           |
|      | Net (loss) or gain on FVTOCI assets   | (5.39)                         | 0.0                                 | 2.08                           | (5.99)                         | 2.08                           |
|      | Other comprehensive income to be reclassified to profit or loss in<br>subsequent periods:     |                                |                                     |                                |                                |                                |
|      | Exchange differences on translation of foreign operations                                     | (0.30)                         | 0.38                                | (0.07)                         | (0.13)                         | (0.25)                         |
|      | Total other comprehensive income  | (5.44)                         | 0.56                                | 2.40                           | (5.99)                         | 2.45                           |
| 7    | Total comprehensive income (after tax) (5+6)  | (12.08)                        | (8.73)                              | 30.49                          | 0.41                           | 85.64                          |
| 8    | Paid-up equity share capital (face value of ₹10 each)   | 53.07                          | 53.07                               | 58.01                          | 53.07                          | 58.01                          |
| 9    | Other equity  |                                | 8.5                                 |                                | 366.64                         | 569.62                         |
| 10   | Earnings per share of ₹10 each: (not annualised for the quarter)                              |                                |                                     |                                |                                |                                |
|      | a) Basic  | (1.25)                         | (1.70)                              | 4.85                           | 1.14                           | 14.01                          |
|      | b) Diluted  | (1.25)                         | (1.70)                              | 4.82                           | 1.14                           | 13.94                          |
|      | Audited standalone final  | ncial informatio               | n                                   |                                |                                |                                |
| Sr.  |   |                                | Quarter ended                       |                                | Year e                         | ended                          |
| No.  | Particulars   | March<br>31, 2023<br>(Audited) | December<br>31, 2022<br>(Unaudited) | March<br>31, 2022<br>(Audited) | March<br>31, 2023<br>(Audited) | March<br>31, 2022<br>(Audited) |
| 1    | Revenue from operations   | 49.29                          | 66.80                               | 103.75                         | 278.11                         | 341.55                         |
| 2    | Profit before tax   | (9.75)                         | (10.94)                             | 33.87                          | 9.29                           | 103.56                         |
| 3    | Profit after tax  | (6.55)                         | (8.16)                              | 26.03                          | 7.70                           | 78.19                          |

Place: Pune Date: April 17, 2023

-

Notes to financial results: otes to manactar results: The above financial results for the year ended March 31, 2023 have been subjected to Statutory Audit by the statutory auditors of the Holding Company a reviewed by the Audit Committee and approved by the Holding Board of Directors of the Company at the meeting held on April 17, 2023. Figures for the quarter end March 31, 2023 and March 31, 2022 are the balancing figures between the audited Tigures in respect of the full years and published year to date figures of mine mor anded Dioember 31, 2022 and December 31, 2027 respectively.

ended December 31, 2022 and December 31, 2022 respectively. The Board of Directions have recommended the divident of 42 5 per equity share of the face value of \$10.00 per share for the year ended March 31, 2023. The payment of divident is subject to approved of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting of the Holding Company. Remuneration payable by the Holding Company amounting to \$2.03 Cs.ox, to its independent Directors is exceeding the limits of \$0.02 Crs presorbed under Saction 197 of the Companies Act, 2013 and is subject to approval of the shareholders in the ensuing annual general meeting. The Board of Directors of the Holding Company at Its meeting hold on July 21, 2022 and the shareholders howers of equity shares of the Holding Company at Its meeting hold on July 21, 2022 and the shareholders are a share and a share of the Holding Company at Its meeting hold on July 21, 2022 and the shareholders at precedent at precedent and the shareholders and the Holding Company at Its meeting hold on July 21, 2022 and the shareholders at a precedent 4 200 per share for an aggregate amount not exceeding 150. The Holding Company completed the Buy Back Process on October 28, 2022 and has complet with all the requisite for analities with SFR and RO.

wim size at an uncu. For the year ended March 31, 2023, as per the requirement of the Companies Act, 2013, an amount of ₹3,31 and ₹176,63 (Including tax on buy back of ₹34.94) has been utilised from securities premium and retained samings respectively. In accordance with section 68 of the Companies Act, 2013, capital redemption reserve of ₹5.00 (representing the normal value of the shares bough backs) has been created as a approforment from thatined earnings. Company that buy back, the paid-up equity share capital has reduced by ₹ 5.00. Further, transaction cost of buy back of shares of ₹1.85 has been reduced from retained earnings.

The Group is engaged in providing security software solutions. The Chiel Operating Decision Maker (CODM) reviews the information pertaining to revenue of each of the target costioner group (segments) var. retail, enterprise & government and mobile. Howeve, based on similarly of activities/products, risk and researd approxil parameters and structure (and potential solutions) and parameters and structure (and potentials) solutions and structure (and potentials) solution (and potentials) and and the solution of the potential solutions and structure (and potentials) solutions and potential solutions and solutions and the solution of the potentials of the one generation sectored and the potentials of the one generation sectored and the potentials of the one generation sectored and the potentials) and the one potential solution of the solution of the potential solution of the solution of the potential solution and the solution of the solution of the potential solution of the solution of the potential solution of the solution of

For and on behalf of the Board of Director



जाहीर नोटीस

पुणे येथील मे. एस. जी. वरडे साहेब, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी

साहेब, प्रथमवर्ग न्यावरंडाधिकारी न्यायालय क्रमांक ७, पुणे फौ.कि. अर्ज क्रमांक ८५३/२०२३ प्रकाश तानावी गोडये नोटीस देण्यात येते की, उपरोक्त अर्जदार जन्म-मूल्यू कायदा कलम १०(३) अन्वये या न्यायालयात त्यांचा न्यायालयात त्यांच

स्वतःचा जन्म दिनांक ११/१२/२००२

रोजी कुंजीरवाडी, ता. हवेली, जि. पुणे येथे जन्म झालाबाबत जन्माची नॉद --भ अन्म शालाबाबत जन्माचा नोंद जन्म-मृत्यू नोंद ग्रामपंचायत कुंजीरवाडी, पुणे येथे करून मिळणेबाबत अर्ज केलेला आहे.

ज्या कोणास सदरह् अर्जासंबंधी हरकत घ्यावयाची असेल त्यांनी नेमलेली

| वडगाव वेथील मे. एस. आर. बर्गे            |
|--|
| कोर्ट, मे. ज्यु. मॅजि. वर्ग १, प्रथमवर्ग |
| न्यायदंडाधिकारी, खडगाव माखळ, जि. पुणे    |
| फौ.कि. अर्जनं. ४३/२०२३                   |
| सुमन कचरू अंकुश - अर्जदार                |
| विरुद                                    |
|  |

------

ुप परान्धां के किस्तु - अवर्थ प्राप्ता अर्थवार के - वार देखा प्राप्ता अर्थवार के किस्ता के - वार देखा प्राप्ता अर्थवार परि के काल्य प्राप्ता के वार्थ, प्राप्ता के प्राप्ता के कि प्रा प्रार्थवार परि के काल्य पुरा प्राप्त के वार्थ के किस्ता के कि किस्ता के वार्थ के किस्ता के किस्ता किस्ता के वार्थ के किस्ता के किस्ता किस्ता के वार्थ के किस्ता के किस्ता किस्ता के किस्ता के किस्ता किस्ता के किस्ता के किस्ता कारण किस्ता के वार्थ का किस्ता कारण किस्ता के वार्थ का किस्ता कारण किस्ता के वार्थ का किस्ता कारण किस्ता किस्ता के वार्थ कारण किस्ता के वार्थ का किस्ता कारण किस्ता किस्ता के वार्थ के किस्ता का किस्ता के कार्य के किस्ता का किस्ता के कार्य के कार्य के किस्ता का किस्ता के कार्य के कार्य के किस्ता का कारण के किस्ता के कार्य के किस्ता का कारण के कार्य के कारण के किस्ता का कारण के कारण के कारण

हरकत ज्यावयाची असेल स्थानी मेमलेती तारीख 0१/0५/२०२३ रोजी ठीक ११.00 सकाठी वात्रता स्थत: किंवा वकिलांमाफंत फोजदारी न्यायालय क्रमांक ७, पुणे येथे इजर राहाये, आज दिनांक १३/0४/२0२३ रोजी माइया सहीनिशी व कोटांच्या शिक्क्यांनिशी दिले असे. हुकुमारूल, क्रिज्ज ज्या

होन थ न्यानस्था |टीस दिली असे. हिलका सहायक अभीक्षक दिवाणी व फौजदारी न्यायालय, वड सलाप्रकर वडगाव मावळ

शिक्का सहाय्यक अधीक्षक फौजदारी न्यायालय क्रमांक ७, पुणे

जाहीर नोटीस तापर गोगमंत्र घ जाते नैतीको कार्जमाल को की आठील राजियाता नगे केलेज जाते स्थानको में स्वार स्वार सीहरदार 13.41.88% सालग अन्यते है। आजये सार्व सा प्राया, हिन्दु में स्वार के स्वार प्राया के स्वार के स्वार प्राया के स्वार क्वार के स्वार का स्वार का स्वार का स्वार का स्वार का स्वार का स्वार के स्वार के स्वार के स्वार का स्वार का स्वार का स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार का स्वार स्वार का स्वार क्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार क्वा स्वार स्वार के स्वा

कारण्डे, ही जाहर नाटांस, जुल, हि. २९,७४४/१०२४ (साख पलाराय लावल्ल्ल्ल) ए**म. जी. शेंडे, उँडव्युतेस्ट.** १६/६५३, कड प्रविकाय, निग्मी, क्रुने-४४ फोन नं.०२०-२७६५४१२०/ २७६५४१९६ मोमा, ९४२२००५३३२ ई-मेल: muriidharshende@gmail.com (म

(TT. JR. 23082066220

|                         | जेजुरी नगरपरिषद, जेजू  | री, जि. पुणे  |   |
|-------------------------|--|---|---|
|                         | नगरपरिषद कार्यालय,   | 0   |   |
| बा.क्र                  | , जेनपा/कावि/७६४/२६  | दिनांक : १,   | 2/08/2023   |
| कामा<br>येत अ           | जाहीर निविस्<br>जेजुरी नगरपरिषद, जेजुरी, ता. पुरंदर, जि. पुणे आ<br>हरिता अनुभवी व मान्यताप्राप्त तसेष योग्य त्या वर्गातील<br>गहे.  | रोग्य विभागाकडे खाली  |   |
| अ.<br>क्र.              | कामाचा तपझील   | वयाणा<br>रक्कम  | टेंडर फॉर्म<br>फी   |
| ş                       | चेचुरी नगरपश्चिद, आरोग्य विभागाकडे कार्यरत सर्व स<br>यांना शाह, स्वच्छता व लद्भ्मुपॉगिक कामे कसाना अ<br>साहित्य व सुरखितत्तेच्या दृष्टीने आवश्यक चैपीई किट<br>विट व तद्भ्मुपंगिक साहित्य खरेदी करणेवावतचे दर   | ावश्यक<br>व मेडिकल  | 500/-   |
| आले<br>कार्या<br>दराज्य | स्वरील कामाचे टेंडर फॉर्म नगरवरित्द कार्वालयामध्ये<br>हर दरावल हि. २०/४/२०२३ नेत्री दुपारी २.००<br>पा निरिध्व विधाय फेल्टचा वाषार तात्री. स्वमासं<br>त्रयात कार्यलयोन केले फिल्टा, अठीरणा व शातिया<br>त्रिका जासन टाराटना सार्वे निरिद्ध मोडलेती कारण<br>कार नगरपश्चित्रेने एखून देतराता आहे. लागची कारणे दिती<br>संघर्क : ९५२७८८४४९७ (बाळासाहेव बगाडे, आगोय | वाजेपर्यंत स्वीकारले जा<br>बंधित अधिक माहिती जेव्<br>निविदा स्वीकारल्या जाणा<br>। देता स्वीकारण्याचा अग<br>। जाणार नाहीत.<br>विभागग्रमुख)<br>सरही/- | तील. त्यानंतर<br>बुरी नगरपरिषद<br>( नाहीत. कमी<br>( नाकारण्याचा |
|                         | शिक्का   | चारुदत इंग्   |   |
| NIK.                    | HERTOCOTT)   | ख्वाधिकारी, जेजुरी नगर  | परिषद, जेजुरी   |

जाहीर नोटीस

Utilite CICILII वा जातीर सेतीयाठी स्वरीपत को भी थी. उतालीन परिविध्यक लर्थन केलेली जांगेर सिरफल हो लिये जितावर मारफल की भी, उतालां का परिवधि आत. प्रत्युक्री ति. जुमें यो सालसी करकों में सांक वीपतियों की सारदर्श मिठानी मान मियायन सालस्वांनी आत्मका अतिस्वार्थभार करवाला कि सार्वे कि सारक्ष प्रत्युक्त सीन प्रायं के सिरफल हो प्रत्युंगे कि स्तितंत्रीय में बोचली का अस्यान सारग प्रत्युक्त सीन प्रायं में स्वरुद्ध की प्रत्युक्त के सार्वे के सारक्ष के सार्वे के सार्वे प्रार्थक सीन प्रियंग्र मारहसानी आत्मे अतिलांग दिरोगा आते. पार्थ, मान्द्र क्रिक्साने की, प्रार्थक सीन प्रियंग्र सारहसानी कि सारक्ष आत्म के सारक्ष का स्वर्थन का सार्वे वार्ता तेर्वता प्रायं से देवज कारी प्रत्युक्त के क्रांत्र के सारक्ष का स्वर्थना का सारकि प्रायंग के सारे देवज कारी प्रत्युक्त के सारक्ष आत्मन के अत्मन्त्री के सारक्ष सारकि प्रतांक के सार्व प्रत्य सार्वे के बीचलारिक आतेन के कीक्सी के सारक्ष सारकि सारकि कार्यक सार्वे के सार्वे प्रत्युक्त प्रतां के सारक्षी कार्यन्त कार प्र दालकि कारक सार्वक कार्यवार्ध के स्वर्धन कार्य प्रतां केलोंक के सारक्ष कार्यना के सारक्ष सिर्विधात मितक्रियंग्र के प्रतां प्रत्युक्त के प्रतिक्ष प्रता केलिक के कि सारक्ष सारकि सारक्ष के प्रतार प्रतां, सार्वे के प्रतारक्ष कार्य के सारक्ष सिर्वा प्रार्थ सारक्ष प्रतार सार्व, सार्व के प्रार्थ प्रतान के सारक्षी के सारक्ष के सारक्ष दे प्रती से मितक्रवत्री बर्यतान सारक सार्व के सिर्वे कारक्षनी स्वर्थन का सार्वसायिती वी सार्व से प्रती से मितक्रवत्री बर्यतान सारक सारक की के सारक्ष के सारक्ष के छ ते छ के ता ह सद सारक दे स्वर्थ से सारक्ष सार्वत प्रतार प्रतारक्ष

१९ तबर पित्रे नायम्बन गतन्त्र वासे पहुन्दोता वार्वायांकार्गः -वासे न्यू ने १३ मार्गेल शांक से वी विद्यस्वत, परियम्बन म. व. १३ ५४ मार्गेल सार्व्यायांवे नेवनाड वाशाम दविषेया- विद्यार मार्ग्य वास्त्री नेवीरिक विद्यालन, उसेका- विद्यार मार्ग्य नार्वे नेवीरिक निष्टम्ब तिक्र सेप्रेयमांने स्वानि विद्यस्त ही दबकी निर्वायां स्वारं वार्ति नेवीरिक निष्टम् क्रिक्ते सेप्रेयमांने स्वानि नेवीरा दि हो दबकी निर्वायां का वित्यम्बाकी विद्यार्थना क्रिक्ते क्रांति क्रिक्ता हो हो दबकी निर्वायां का विद्यार्थ कार्या क्रांति नेवीरिक निर्वायां के स्वार्या स्वार्या नेवीरा दि मार्गे क्रांत १७ १७ / १२१२

जना. गुन., स्टानक : (७) ८७, १८९२. झेंडे ॲंग्ड गुंडेरे, ऑडव्होकेट्स ऑगड असोसिएट्स जीनिस - गांव इंटेट, ट्रप्यम निवयक मुळवी - २ यांचे कार्यालयानेवारी, मारुंजी रोड, डिंजवर्ड ता. मुळवती, चि. पुणे-५७. मो. ७८८३४४९८०८/ १८९९७९५९९१. जन्म २०७०४८८

## CAUTION NOTICE

CAUTION NOTICE The Authorised Officer of Shriram City Union Finance Limited, having its address at, [a] [23, Angappa Nicken Street, Angappa Nicken Street, Data Street, Construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 [SARFAES] Act] against [1] Vinod Hiranard Valinerania and [2] Daya Vinod Valiaramat (herkinated against my clients. On this background Necice is hereby given to the Public at lare and particularly to the interested parties that the action of the and particularly to the interested parties that the action of the Authorised Officor of Shriram City Union Finance Limited to initiate proceedings under the provisions of SARFAES Act against the Scheduled Properties has been challenged by my clients have made several interim application seeking protection at the hands of the HorNibe Tinhung Light and the side matter my clients have made several interim application seeking protection of the Scheduled Properties has been challenged by my clients have made several interim application seeking protection at the hands of the HorNibe Tinhung Light and the hornibe Tinhung Light have from time to time deposited the amount as directed by the over physical possession of the Schedule Property by preferring them Applications. However even though, Internet Applications have been allowed, the Main Sccuritisation Application No. 89/2023 is fill pending and will be devided to property. Mence, the group public the schedule Property by preferring the status of the schedule of the Schedule Application No. 89/2023 is filled by my clients and the ownership rights croated in favour of my clients and the ownership rights croated in favour of the schedule of the schedule Application No. 89/2023 is filled by my clients and the ownership rights croated in favour of the schedule of the schedule Application Application No. 89/2023 is filled by my clients and the ownership rights croated in favour of my clients in relation to Schedule property. Mence, the group public the addition for the schedule approper

PuneCity, 19 Apr 2023, Page:008 https://epaper.dainikprabhat.com

जाहीर नोटीस तमाम लोकांस या जाहीर नोटीसी न मालक **नितीन मनोहर कुडले** न मालकांनी जिल्लाणोटी रक्तर र त्मारा सारवारी अल्... ताल सार्व राज्य की ताल सुर, ... ताल सार्व राज्य की तालेश हिला आ है. यह सार मान्य कार सार राज्य की ताल सार राज्य का स्वार्थ संकल सार्वी में सीथा प्रतिद्व को सार्यु 1.4 कार सार प्रति के सार राज्य का सार्वे सार्व का सीन सीवी में सीथा प्रति का मान्य का सार राज्य के सार राज्य का सार राज्य का सार राज्य का कि सार की सार सार राज्य के सार राज्य सार राज्य का सार राज्य का सार राज्य का कि सार सार सार राज्य के सार राज्य सार राज्य का सार राज्य का सार राज्य का कि सार सार सार राज्य के सार राज्य सार राज्य सार राज्य का सार राज्य का कि सार की सार सार राज्य के सार राज्य सार राज्य सार राज्य का सार राज्य का सार राज्य का सार सार राज्य के सार राज्य सार राज्य सार राज्य का सार राज्य का सार राज्य का सार सार राज्य के सार राज्य सार सार राज्य का सार राज्य का सार राज्य का सार सार राज्य सार राज्य सार सार राज्य सार सार राज्य का सार राज्य का सार राज्य का सार सार राज्य सार राज्य सार सार राज्य सार सार राज्य का सार राज्य का सार राज्य का सार सार राज्य सार राज्य सार राज्य सार सार राज्य का सार राज्य का सार राज्य का सार राज्य का सार सार राज्य सार राज्य सार राज्य सार राज्य सार सार राज्य का सार राज्य का सार राज्य का सार राज्य राज्य सार राज्य राज्य सार राज्य सार राज्य राज्य सार राज्य सार राज्य राज्य राज्य रा

जाहीर नोटीस स्वान गोलंग कार्यप्रमा है थी। देशके प्रति के प् ते के प्रति के प् प्रावक प्रति के प् प्रावक प्रति के प् ते प्रति के प् ते प्रति के प्रति के प्रति के प्रति के प् ते प्रति के प्रति के प्रति के प्रति के प् ते प्रति के प्रति के प्रति के प् ते प्

साथी फ़ोरावारी स्वरूपाय इन्हर का साथ आगाना का साथ है। साथी के प्राप्त के प्राप्त के साथ के साथ का साथ का साथ के प्राप्त के साथ की साथ की साथ की साथ की साथ की साथ के साथ की साथ के साथ का साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ का साथ के साथ का साथ के साथ के साथ का साथ के साथ के साथ के साथ के साथ का साथ के साथ का साथ के सा साथ के साथ

नितीन बी. ढमाले, अंडव्होकेट व नोटरी, गायत्री डी. रिले, अंडव्होकेट ग्रांतीदीय कॉम्प्लेक्स, युनिका बैंकेसमोर, वडगाव, ता. मावळ, जि. पुगे. मो. नं. ९८५०९

#### सासवड नगरपरिषद, सासवड जाहीर निविदा सूचना

318/14 नायदार दूंपुरावा क्र.: सा.न.प.ग., गुआमा साली, सा./. ५७/३०२३ सिरमाड नायर्थमिरेणा माणीपुरावा निपामकर्कता सालीरप्रमाणे काम कर्लमध्यमां क्षे तिरुप्रधान्ने सार्थन निष्ठाद प्रात्मणिया के काम. कोमता निर्वाध मां हि. १९/४/१०२३ हि. १९/४/१०२३ प्रायु मुन्द्री दिसा सेतुत व्यापंत्मांने मेळेता संवेशात्म देशाम्माठः रोमवे निर्वाध मार्थन्त निर्धाध कुरुष कारवार्टनि निर्धाध भी तिता प्रथम आपका रोमवेने निर्धाध भीधने क्रि. कार्यक्र कार्यप्रात्म निर्धाध भी तिता प्रथम आपका राज्येत निर्धाध भीधने क्रायुक्त कार्यप्रात्म निर्धाध भी तिता प्रथम आपका प्रात्मेन मात्म निर्धाध भीधने क्या क्रायुक्त कार्यप्रता निर्धाध भा ब्यापा स्वम्म प्रायुक्त मार्थणा निर्धाध आध्यात्म निर्धाध भीधने क्या क्रायों क्या निर्धाध कि तिता आपका आपका प्रात्म प्रात्मिन निर्धाध क्याप्रे क्या कर्यों क्यां क्यांक्री निर्धित अतिवा आपका आपका क्यार्थन साम्म प्रोत्म कर्यों, जोव क्यांक्रीनि तिवित्व आत्ता आपका पूर्णि क्यांत्मपाया विता नायरापेचा अधिकस सातवह प्रात्मिदेरे प्राप्तु वेश्वतेना आते. रातानो पाठविशेनी निर्धाध स्वीधन्य क्या नाय निविदा स्वीकारली जाणार नाही.

| अ. तपशील<br>क्र. |  | अंदाजपत्रकीय<br>रक्कम | वयाणा<br>रक्कम | निविदा<br>फॉर्म किंमत           | कामाचा<br>कालावधी |  |
|------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|--|
| ٤                | १ सासवड नगरपरिषद इग्रीतील ५,९३,४७२/- ५,९३५/- ५९<br>पारागव रोड ते इनाम करती<br>येथे नवीन पिष्ण्याची पाईंग<br>लाहन टाकने |                       | 490/-          | आदेश<br>दिल्पापासून<br>३० दिवस  |                   |  |
| (8.9.            | <b>शिक्का</b><br>मक्तम्प्रता)  | 11                    |                | सही/-<br>निखिल बा.<br>मुख्याधिव | मोरे              |  |

### जाहीर नोटीस

जाहिति नाटास्स वामास लोकांस वा जाहौर नोटीसीने कळविष्यवार पेते की, खालील पीरिष्टामप्ये व्यर्भ केलेली मिळकत त्यांसर नामरेव कुंगे, कोंडावी बिहुल केलवे: कुछराम बायुपाव देखर व संवय चिहुल में से यांच्या मालकी बॉकियाटीनी आठे, वर्सा चार विखाना सालकांसीकी टामोर तामरेव कुछर्म, कुछराम बायुराल देखर व संवय विद्वल मोरे हे सदर मिळकतीमपील त्यांचा प्रत्येकी 00 है. १८ आर प्रत्येक पहुला 0 है. 30 आर विष्यवत दिस्यान मालकांती त्यांचे स्वार मिळकतीमपील त्यांचे आत्मा क्रांत आते. सदर सिख्यान मालकांती त्यांचे सदर मिळकतीमपील त्यांचे आवश्वत दिस्याचे इक्क, निवेध व निजोध्यमी आसून, त्यांस अन्य कोणवादी कोजयादी प्रकारपा बोवा, लीन, लीन, दान, दरस, बर्खाला, सादेखत, कुल्समुखरापर, करात्माना नाही, असा भार्यका आगण्वा आतीलांना दिला आहे. चार को जाणाती प्रत पिळकती प्रदेश प्रत्यक्र हक्साचे आ उप्तार प्रत्योकी प्रत्येक्ष कुल्समुखरापर, करात्माना नाही, असा भार्यका हक्स व किसबंध असल्यास त्यांनी हो मोटीस प्रतिक्ष झाल्यामसूर १७ दिख्यांचे आ तरा प्रांक्षण्या प्रक आर्थवार्गी देवसांचे आत त्या संबंधाच्या मूळ कागदपत्रांनिशी आमची खात्री करून डावी गन्यथा सदर मिळकत निर्वेध व निजोखमी आहे, असे समजून आमचे अशीर दर मिळकत विकत घेतील व नंतर कोणाचीही कसलीही त ाची नोंद घ्यावी.

यांचा नाद स्थाना. **पांतिशर** जिल्हा पुणे, ता. <u>पुळशी, में</u>चे पिंरपुर, येथील गट नं. ६०९ (जुना गट नं. १४३३) यांसी पोटवरावामलिश एक्स थेष १. १. १८.९० आर या मिळकतांपैकी ०० हे. ३० आर सेजाव्या नद्यांसीम येणेप्रमागे :-पूर्वेस मुम्बाउंचाडी - लवासा गे. उ. दांसिम : गट नं. ६०९, पिरंपुट पैकी कोडाजी सिट्टल बेलवटे यांची १० आ मिळकत

ामळकत, पश्चिमेस : गट नं. ६०७ पिरंगुट पैकी उर्वारेत मिळकत, उत्तरेस : गट नं. ६०९ पिरंगुट पैकी उर्वारेत मिळकत, येणेप्रमाणे नोटीस. पुणे, दिनांक १८/०४/२०२३

एस. एम. देशपांडे, अंडव्होकेट कुंदन चेंबसं, दुबे पार्क, संचेती हॉस्पिटलजवळ, पुणे-४११००५ मो. १४२२०४९००४

. 982205926

## मालकी हक्क तपासणेकामी जाहीर नोटीस

मार्थ्यता दर्दराज सामार्थ्यद्यामा चाहिस माटिकल्पमं, बाललेष परिवाहत नमुद्द केदेले तोवणीकृत पाणीदारी संस्था, पता- चो-१७५, प्रोप्त भंग आगठींद, जुमिद होस्टिल्टल्पा पाठीमां, जोंध वामंत कित ते, ब, बल्डेलाडी पाट, वाम्ए, पूर्ण-१४१0५५ तर्ह भागीतर की. संदेश कुठमीतम बोगेहे त की. संदेश कित्रकों, बोरोटे यांचे माठले प्रकृत र त्यां, क्रम्बतेब्रीबाटीची आह. संदर्शन फिल्क आपने अणिलामोस संस्थृत्वरीत्वा विसम्स क्रम्यवायात विद्याम माठक अग्राचे अणिलामोस संस्थानीत्वा किंत्रम क्रम्यवायात विद्याम माठक अग्राचे अणिलामों भाष्यता स्थान किंत्रित स्थान क्रम्यवायात विद्याम माठक व आमचे अशिलांचे दरम्यान व्यवहार निश्चित ठरला आहे. उक्त विद्यमान मालकांचे मालकी हक्क तपासणीकामी व त्याप्रमाणे दाखला देणेकामी प्रसिद्धीर टिलेली आहे

दल्ला आह. सदरील मिळकत पूर्णत: निर्वेभ, निजोखमी, निष्कार्जी व बोजारीहत असून विधमान मालकांस सदरील मिळकतीचे पूर्णांसों मार्केटेक्ट वयलटक आहे असे त्यांने महणों आहे. वयारी, सदरील सिळकतीलां उत्तन सिंवसान मालकांचे व्यतिरिक अन्य कोणावाही कोणत्याही प्रकारचा गहाण, दान, लीन, लीज, पोटनी, अन्नवस्त्र चार्ज, वाटप, वारसा हक्क, मृत्यूपत्र, अदलाबदल, करार, खरेदीखत, मुखत्या अगर तत्सम वा अन्य कोणत्याही स्वरूपाचा कोणत्याही प्रकारचा बोजा, हक्क अगर तरमा वा अन्य काण्यलाही स्वरूपाचा काण्यलाई प्रकारचा बाता, स्वरू अधिकार हीतांस्वेध असरपाच आग मार्थवींसाती करारी कोंगिया प्रसिद्ध हालेग्यन्त १५ विस्तावें आत मुख कारपटचे पुराव्यांस आगमे बालौल पर्सावस केन्द्र वाजी कलन प्रावी ब हरूवा तरंदलाते. जा स्वर्टल प्रतारोग आग की कोणराही प्रकारांग कारपोराम पुराव्यांसह सरका रॉदलिली गेली ताती. तर सररील मिळकत पूर्वत. मिर्वेप, निताबमा, निकर्जी व बोलारतित आसु, अप्रोच्चा मार्ल्याम सरील मिळकतीचे पूर्ण मार्केटबल टायलट आहे, कोणवाही केजपाही प्रकारच कार्डी मिळकतीचे पूर्ण मार्केटवल टायरल आहे, कोणचाती कोणत्याती प्रकार काती एक तबक, आरिक्स, तिसंपर्थ माती के आरत्यास तो त्यांनी वा व्याणत्युक सोयूट रिटेल आहे, असे समजगेत पेइंठ व त्याप्रमाणे टायटल वतीआत्म वाखाल हो कार्डर, टारप्रेसमाणे व्यवहार पूर्ण होइंठ, जाहार वा मुद्रतीनंत कोणचाती कोणत्याती प्रकारची हरकत विचारत पेतल जाएता गांहे, याची त्याप्र पंराधानां की कोणत्याती पुरुद्ध तो पुरो के प्रति हरका ने व्याप्त राजे के प्रति प्रयान प्रति हा पुरो के प्रति हरका ने प्रति प्रयान के प्रति प्रयान अधिका कतोतील, वित्या ने प्रत के तो के प्राप्त प्रयान के प्रति के प्रति प्राप्त मा में उ स्वारे पेवाल विव्याहत.

स.नं. २५८/१ पैकी एकूण क्षेत्र ०० हेक्टर १०.१५ आर पैकी विभक्त क्षेत्र 9.7. १९८२ मध्य पूरा का १७ लगर १८२२ आ मा मानम का 00 लेक्टर 02.4 आ ( (०) १९४ ठानायामाण), (४५०.७४३ जी. मीटर्स, दस्ताप्रमाणे, खाबगी प्लॉट नं. १८, बालाजी पार्क) त्यावर बांधण्यात आलेला व तारा या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या बांग्ल्याचे बांधकामासड अशा 02.५१ आर

| या | बंगल्य | गचे | बांधक | मासहीत   | चतु:सं | मा  | ন্তাল | गेल्प्रम | r |
|----|--------|-----|-------|----------|--------|-----|-------|----------|---|
| īđ | R      |     | खाजगी | फ्लॉट नं | 810    | वार | ठाजी  | पार्क    |   |

- पूर्वेस : खाजगी प्लॉट नं. १७, बालाजी पार्क, दक्षिणेस : स.नं. २५९, बाणेर, पश्चिमेस : खाजगी प्लॉट नं. १९, बालाजी पार्क,
- उत्तरेस रस्ता.

येणेप्रमाणे वर्णनात्मक मिळकत. अटॅचड सर्व डक्क. अधिकार तसंबंधासहीत. पणे. तारीख : १७/०४/२०२३

दादासाहेब नाणेकर. अंडकोकेट व अपार्टमेंट, फलेंट नंबर २०२, पहिला मजला, जंगली महाराज

शिवालय अपादमर, फलट नवर २०२, पाहला मजला, जगला महाराज रोड, ३८०, शिवाजीनगर, जंगली महाराज मंदिरासमोर, पुणे- ४११००५ फॉन : २५५३२९४९, २५५३९९४७ E-mail : dadasahebnanekar@gmail.com

स्वारण साम्लब सबसे भागे की परिवर्तन के प्रति प् ता देवा से प्रति प् ता रेग साम्ला स्वार्थन साम्ला सिंहा सामित्य प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प् ता रेग साम्ला स्वार्थन साम्ला स्वार्थना साम्ला स्वार्थना साम्ला साम्ला साम प्रति प् ता साम्ला साम्ला साम्ला स्वार्थना साम्ला साम्ला साम्ला साम्ला साम्ला साम सामित्य प्रति प् देवा से प्रति प् ता सामला सामित्य प्रति प् ता सामला सामित्य प्रति प्रत

 $\label{eq:starting} \begin{array}{c} u_{gent}, u_{gent},$ 

ताशलतक अंद्रकांत राधुणी बुचडे, सौ. प्राची चंद्रकांत बुचडे, अंडव्होकेटस् लिकाः गंग हार्ट्या विल्डिंग, दुव्वम क्लिंग्रेक मुळगी क.? यांने कार्वाल्याशेश्वरी, मार्स्त्री रोड, विवडी, ता.मुळली, जि.पुणे.५७. मो.तं. ९९२९७२२०२०. पुले, दिनॉक १८/०४/२०२३

### जाहीर नोटीस

प्रााह सिंद मोटीस प्रमास लोकांस या काले, रोटोसी कळलिपाठ के की, जालील परीतिष्ठाभे वाने के किलो किलान की, जेहला हिक्स भी, ज. 14-03, आनंद रेसिलमें, पहिल्ला स्वाल्य, कोपलड, पूर्ण-242.02 र पॉण सालंगे में 14-03, आनंद रेसिलमें, पहिला स्वाल्य, प्रेरी राव रेसालक लेहला उनके पात्र पात्र वा की वीचार्यों के कोर्ड के किलान अर तिकल्वनी वालीपन एताल्या किलाने प्रााह कोर्स आहेता किलान प्रार्थों के प्रार्थ प्रार्थ के कोर्ड के क्रिस्ट के कार्य के कार्य से अलिपती सेंद किलाने कहेंदे देप्यायान से लोगनी किन व्यवास निशिष्ट हाता आहे. स्वार किलान कि कींग, लेवी न योगि करा, क्रेस्टे अर्थनी हाता आहे. स्वार किलाने कि कींग, लेवी न योगि करा, क्रेस्टे अर्थनीय आहेता हो सार किस्तालक, मुझ्यापार, इसेर, उसेरोपा आहल, तकिंदावीआलगर राज्या प्रार्थ, कार किस्ताल कह, हमार्थ आलग्धन पात्र किर प्रार्थ, किलान प्राराहक, किस्तालक, मुझ्यापार, इसेर, उसेरोपा आहल, तकिंदावीआलगर राज्या प्रार्थ, कार कोर्जाची के कराता की प्रार्थ, किंग्रे प्रार्थ का क्रांत के सार कोर्जाचीक करात्र की आत्र कार राज्या के ताज्य प्रेर, ताज्य के कांग, लेवी न योगि करा, स्वेर अर्थनोद्य सालह स्वार्थ के कींग माराय के कांग से अलग करात्र के कार कार सालक राज्या के कींग माराह किस्तालक मुझ्यापार, इसेर, उसेरोपा आहल, वार्जावीआलग स्वार साल्य के कोर्ग न कोर्जाची के कराताती क्रांत के कार कार सार राज्या के कींग माराह के कोर्जान कि साल कार कारात का न कर, कार्य के आत्र कार सालह राज्या के कींग साल कार्या करता काराती कार क्याली के कार के किला के राज्या हुन की तार्य प्रार्थ कारांग कारा कार के कींग के की के के किला की साल साराह के कोर के काराज्या के कींग के कारायों कारा आगलने के की के के किना की कारा के किता कारा की की कींग कि कि किस कारा के की के की के के कि के की के किला का राज्या की कारा की की की काराहन कारा के की कींग के के किना के की के की की की काराव्या कारा कारान के की के के की के की के की के की कि कारा का की कारा की के की के की की के की की काराज्या का राज्य कि कारा के की साराह के रही के राज्य के कारा के कारा का राज्य के कारा के की साराह के की की कारा के की के की के की के की की काराज्या का राज्य के की की की काराज्या की कारा की के की के के की की काराज का राज्य ता कि कारा की की काराज्या की कारात का की के की

तप्रमणे :-पूर्वेस : वॉसिंस संखय जमशंत प्रांची सिठकत, दविषणेस : जानेरणद पादव पांची सिठकत, परिषणेस : वाराजीद रीजीट करसी : सुस-गई रीजे. असरी ही सिठकत वा बाहोर नोटोसीचा विषय असे. पुणे, दिनांक १८/०४/२०२३

**कृष्णा हरी पाटील, अँडव्होकेट** ऑफिस नं. ८, श्रीराम यशदा, चौथा मजला, ऑविंड शाळेजवळ, बालेवाडी फाटा, वाणेर

पुणे-४११०४५ मो. +९१ ९८६००००१९९ Email : krishnapatilpune@gmail.com. (पाळ. २३०४०-०५६



## QUICK HEAL TECHNOLOGIES LIMITED

el Edge, Office No. 7010 C & D, 7th Floor, Opposite Neco Garden Society, Viman Nagar, Pune - 411014

|            |   |                                |                                     | (e in crore                    | s, except earn                 | ing per snar                   |
|------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Sr.        |   |                                | Quarter ended                       |                                | Year                           | ended                          |
| Sr.<br>No. | Particulars   | March<br>31, 2023<br>(Audited) | December<br>31, 2022<br>(Unaudited) | March<br>31, 2022<br>(Audited) | March<br>31, 2023<br>(Audited) | March<br>31, 2022<br>(Audited) |
| 1          | Income  |                                |                                     |                                |                                |                                |
|            | Revenue from operations   | 49.28                          | 66.80                               | 103.71                         | 278.09                         | 341.90                         |
|            | Other income  | 10.06                          | 3.47                                | 5.67                           | 22.13                          | 19.20                          |
|            | Total income  | 59.34                          | 70.27                               | 109.38                         | 300.22                         | 361.10                         |
| 2          | Expenses  |                                |                                     |                                |                                |                                |
|            | Cost of raw materials consumed  | 0.25                           | 0.21                                | 0.37                           | 1.11                           | 1.01                           |
|            | Purchase of software products   | 1.32                           | 1.78                                | 5.27                           | 7.83                           | 13.00                          |
|            | Changes in inventories of software products   | (0.15)                         | 0.52                                | (1.22)                         | 0.39                           | (1.85                          |
|            | Employee benefits expense   | 37.95                          | 40.38                               | 39.39                          | 154.90                         | 139.49                         |
|            | Depreciation and amortisation expense   | 3.73                           | 4.17                                | 4.58                           | 15.99                          | 17.38                          |
|            | Other expenses  | 26.08                          | 35.28                               | 25.03                          | 111.98                         | 83.39                          |
|            | Total expenses  | 69.18                          | 82.34                               | 73.42                          | 292.20                         | 252.43                         |
| 3          | Profit before tax (1-2)   | (9.84)                         | (12.07)                             | 35.96                          | 8.02                           | 108.68                         |
| 4          | Tax expense   |                                |                                     |                                |                                |                                |
|            | Current tax   |                                |                                     |                                |                                |                                |
|            | Pertaining to profit for the current period   | (3.96)                         | (2.16)                              | 8.11                           | 1.28                           | 25.88                          |
|            | Adjustments of tax relating to earlier periods  |                                | (0.14)                              | 0.00                           | (0.14)                         | 0.65                           |
|            | Deferred tax (benefit) / charge   | 0.76                           | (0.48)                              | (0.24)                         | 0.48                           | (1.04                          |
|            | Total tax expense   | (3.20)                         | (2.78)                              | 7.87                           | 1.62                           | 25.49                          |
| 5          | Profit for the period (3-4)   | (6.64)                         | (9.29)                              | 28.09                          | 6.40                           | 83.19                          |
| 6          | Other comprehensive income, net of tax<br>Other comprehensive income not to be reclassified to profit or loss in<br>subsequent periods: |                                |                                     |                                |                                |                                |
|            | Re-measurement of defined benefit plans   | 0.25                           | 0.18                                | 0.39                           | 0.13                           | 0.62                           |
|            | Net (loss) or gain on FVTOCI assets   | (5.39)                         | -                                   | 2.08                           | (5.99)                         | 2.08                           |
|            | Other comprehensive income to be reclassified to profit or loss in<br>subsequent periods:   |                                |                                     |                                |                                |                                |
|            | Exchange differences on translation of foreign operations   | (0.30)                         | 0.38                                | (0.07)                         | (0.13)                         | (0.25                          |
|            | Total other comprehensive income  | (5.44)                         | 0.56                                | 2.40                           | (5.99)                         | 2.4                            |
| 7          | Total comprehensive income (after tax) (5+6)  | (12.08)                        | (8.73)                              | 30.49                          | 0.41                           | 85.64                          |
| 8          | Paid-up equity share capital (face value of ₹10 each)   | 53.07                          | 53.07                               | 58.01                          | 53.07                          | 58.01                          |
| 9          | Other equity  |                                |                                     |                                | 366.64                         | 569.62                         |
| 10         | Earnings per share of ₹10 each: (not annualised for the quarter)  |                                |                                     |                                |                                |                                |
|            | a) Basic  | (1.25)                         | (1.70)                              | 4.85                           | 1.14                           | 14.01                          |
|            | b) Diluted  | (1.25)                         | (1.70)                              | 4.82                           | 1.14                           | 13.94                          |
|            | Audited standalone final  | ncial informatio               | n                                   |                                |                                |                                |
| Sr.        |   |                                | Quarter ended                       |                                | Year                           | ended                          |
| No.        | Particulars   | March<br>31, 2023<br>(Audited) | December<br>31, 2022<br>(Unaudited) | March<br>31, 2022<br>(Audited) | March<br>31, 2023<br>(Audited) | March<br>31, 2022<br>(Audited) |
| 1          | Revenue from operations   | 49.29                          | 66.80                               | 103.75                         | 278.11                         | 341.5                          |
| 2          | Profit before tax   | (9.75)                         | (10.94)                             | 33.87                          | 9.29                           | 103.56                         |
| 3          | Profit after tax  | (6.55)                         | (8,16)                              | 26.03                          | 7.70                           | 78.19                          |

to finan cial results

Place: Pune Date: April 17, 2023

was with memory results results for the year ended March 31, 2023 have been subjected to Statutory Audit by the statutory auditors of the Holding reviewed by the Audit Committee and approved by the Holding Board of Directors of the Company at the meeting held on April 17, 2023. Figures for the March 31, 2023 and March 31, 2022 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full years and published year to date figures ended December 31, 2022 and December 31, 2021 respectively.

entrol December 31, 2022 and December 31, 2021 hegodeving. The Board of Directions have recommended the dividend of C2 5 per equity share of the face value of C10.00 per share for the year ended March 31, 2023. The payment of dividend's subject to approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting of the Holding Company. Remuneration payable by the Holding Company amounting to C 2 also Csn, to be independent Directors is executing the limits of C 0.02 Crs prescribed under Section 197 of the Comparise Act, 2013 and is subject to approval of the shareholders in the ensuing amoung amoung to C 2 also Csn, to be independent Directors is executing the limits of C 0.02 Crs prescribed under Section 197 of the Comparise Act, 2013 and is subject to approval of the shareholders in the ensuing amoung amoung to C 2 also Csn, to be independent Directors is executing of postal ball on August 26, 2022, approved the buy back of the Holding Company at its meeting head is an appropriate tables through the Texned refer "out at a pay of postal ball on August 26, 2022, approved the buy have an executing enders of the Holding Company as on the record face, an approval to the shareholders buy face of face of any a pays and the the Holding Company including promoties of the Holding Company as on the record face, an approval to the shareholder buy face of face of any a pays of the allow of the Buy Back of the Face of the colding Company with SEI and Allow of the Colding Company completed the Buy Back Process on Dotober 28, 2022 and has compiled with all the requises formalities with SEI and Allow. aggregate amount with SEBI and ROC

with SEB and ROC. For the year ended March 31, 2023, as per the requirement of the Companies Act, 2013, an amount of ₹3.31 and ₹176.83 (including tax on buy back of ₹34.94) has been utilised from securities premium and retained semings respectively. In accordance with section 68 of the Companies Act, 2013, capital references near-ow ₹5.00 (representing the rominal value of the shares bough backs) has been created as an apportonment from intende earning; consequent to such buy back, the paid-up ough share capital has reduced by ₹5.00. Further, transaction cost of buy back, of shares of ₹1.85 has been reduced some sequent to such buy back, the target customer group (segments) viz, retail, enterprise & government and mobile. However, based on similarity of activities in distances of structure, segmantal engorable, comparent as defined by Ind \$100 (Section 1998), structured its generations into one operating segment viz, and invessed structure, segmantal engorable, comparent as defined by Ind \$100 (Section 2008), structure as generations into one operating segment viz, and invessed structure, segmantales orbitation (charcella and the sint periodic participations) in the segment segment to activity and activities in the segmant period.



व्यमेर विख्यतनीथे वर्षत्र : कुस्ती पूणे, पोट्युस्टी दलेले हैं, मान -रिसट्टर सहेत दलेले मांगे हरोतील लवेष पुणे विल्हा मीरद, देद गणर पंचाया घंचे उपयेश्वतात राज मीते देह वे गो एक्ट्र से १८११. ८५ जात अधिक थे तब. ०० है. ०२ जात की राज की २७ इस वायायात्रा में 11 पहला से १८१४ वाल प्रित्य के देखा प्रकुषा मारे प्रोप्ता ने पुणे मा करें 1. २०१७ सह वायायात्रा 21 प्रति से देखा मिल प्रकार आंग प्राप्त प्रकुषा मेरोपाया ने पुणे मा करें 1. २०१७ सह वाया 21 प्रति से देखा मिल प्रकार आंग प्राप्त प्रक्रातील कर्यात वेत्र उनसे स रहता (मार्यीक). णः पुणे, क्षिक प्रदीप एस. चिंच ग यालाजी . १७/0४/२०२२ **रोलीकन, अंडव्होकेट** रेसिहेन्सी, शॉय नं. १०, स.नं. ८४/थी-२, साई पार्क, रोडे डॉस्पिंग् रेसिहेन्सी, शॉय नं. १०, स.नं. ८४/थी-२, साई पार्क, रोडे डॉस्पिंग् दियी, पुणे-४११०१५, मो.नं. ८८५

प्रमञ्जून आमचे अज्ञील पढी।

जाहीर नोटीस

गणम तोकांस कठाविण्यात थे। वे. उसतील पंपेशिष्ठता वर्षन केलेली ज्वोन शामी पं ति गिडलन ती २) के. मुराव उक्तू गण्डकलाड, २) के. मुराव उक्तू गणकलाड (मक्स) पां ते व मुने तमाअमोदाय मता असप्यामुके बंधर १ व २ यो की दि प्रयास तरक वरवायुम्पत व अंत्रियती कमस मुलाव गायकलाड, सी) जी. संजय मुलाव मायकलाड, सी) राहुत मुलाव म अंत्रियती कमस मुलाव शायकलाड, सी) जी. संजय मुलाव मायकलाड (स्वार्थ) स्वार्थ 

लसाआतेरको साठा थी. पीपीला जायरेज जंगला, 5) (पर्वासत ठठ्ठुली सावकार सालाखे: हिंदे सा माती मा, निराहाकेको साठे, तुमे परिवर्ट किंवे प्रायतनी व्हरितोत्त प्राराणे किंधा के साती मा, निराहाकेको साठे, तुमे परिवर्ट किंवे प्रायतनी व्हरितोत्त पुराती उन्हों किंसा ११,%2007 (अहमें अस्प्राराज्य पंरायतना वहार साठा ना किंसाते प्राराणे के सार्थ के साती प्राराणे प्राराणी क्रमें के साठा साठा साठा प्राराणे के सार्थ के साती प्राराण के साठा प्राराण साठा साठा ना किंसाते प्राराण के साठा %, 2004 (आहमें प्राराण) साठा स्वर्णना के साठा ना किंसाते सिता ६ एवम १२००४ साठा सुर्वे प्रायती सात्र ने साठी का साठा किंसी सार्वेप्राराण साठा %, 2004 प्रायति इस साठवार प्राराण के साठा किंसी 

स्वतिक प्रति के सिंह कि सि कि सिंह कि सिंह

भाग नाम पुणे, दियों : १७/८१/२०३३ प्रदीय **एम. विंचोलीविस, अटवलेक** कमलराज बालानी रेसिटेन्सी, गॉंग नं. १०, स.नं. ८४/बी-२, साई धर्क, रोडे डॉस्पिटल समोग, दियों, पूचे-४११.०१५, मो.नं. ८८५/८६२७२९, ९५५२९२८८६ लाज्य सरावराज्य

जाहीर नोटीस

्रजा सुरू स्रवेचा पूर्ण हक्क मेही रूपे

च्या समोर

- accus dis. ou rec. resections स्वाप्य रहा, साणिवाड़ा प्रस्ताप दान, स्वापताड ( अन्य सोणवाडी कारणा कारू, विषयंश, तोंचे ता तेली कारणात, साल, कारणात, ( अन्य सोणवाडी कारणा कारू, विषयंश, तोंचे ता तेली कारणात अस्याय संद कारोपाल्य प्रकृष्णी ( 29) ( क्यांसों आज अस्यायम दुराज्यात के आपने दे र ट्यावासी य असकी संपत्नांदी तरहत आस्यायम दुराज्यात क्रेण्याची संदीतें स्वार्य कार्यली विषेथ में निर्वाधनी आहे. आज आप प्रेली कारणात्म कर करते से से विषये कारणी विषेथ में निर्वाधनी आहे. आज आप प्रेली कारणात्म कर करते से सोणवाती कारणी है कारणी विषेथ में निर्वाधनी आहे. आज आप प्रेली कारणात्म कर कारणी तो सारीही है?

गह अषत्रा ज्याच हक्क असताल व्यवहार करतील, मुदतीनंतर कोण

#### जाहीर नोटीस